

This question paper contains 4 printed pages]

**Roll No.**

S. No. of Question Paper : 6295

Unique Paper Code : 2J1211

E

Name of the Paper : **Physiological Psychology**

Name of the Course : B.A. (Hons.) Psychology

Semester : II

**Duration : 3 Hours**

Maximum Marks : 75

(Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.)

(इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए ।)

**Note :** Answers may be written *either* in English or in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

**टिप्पणी :** इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेज़ी या हिन्दी किसी एक भाषा में दीजिए; लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

Attempt *All* questions.

All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. Describe the physiological approach to the study of behaviour. Discuss any *one* method of physiological psychology. 5,10

5,10

व्यवहार के अध्ययन के लिए दैहिक उपागम का वर्णन कीजिए। शारीरिक मनोविज्ञान के अध्ययन की किसी एक विधि का विवेचन कीजिए।

PTO

*Or*

(अथवा)

Describe any *one* of the following methods of physiological psychology :

15

(i) Ablation and Histological

(ii) Neurochemical and Genetic.

शारीरिक मनोविज्ञान की निम्नलिखित विधियों में से किसी एक की व्याख्या कीजिए :

(i) अंशोच्छेदन और ऊतक विज्ञान विज्ञानात्मक विधियाँ

(ii) तंत्रिका रासायनिक और आनुवंशिक विधियाँ ।

2. With the help of a diagram, describe the basic structure of the neuron. Discuss the electro-chemical basis of nerve conduction. 5,10

आरेख खींचकर तंत्रिका कोशिका की आधारी संरचना का वर्णन कीजिए । तंत्रिका चालन के विद्युत् रासायनिक आधार की विवेचना कीजिए ।

*Or*

(अथवा)

Describe the structure and types of synapse. Give an account of the process of communication between neurons. 5,10

सूत्र युग्मन की संरचना और प्रकारों की व्याख्या कीजिए । तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संप्रेषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए ।

3. Briefly state the functions of major fore-brain structures. 15

मुख्य अग्रमस्तिष्ठक भागों के प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए ।

*Or*

(अथवा)

Tabulate the major subdivisions of the nervous system. Describe the functions of the autonomic nervous system.

5,10

तंत्रिका तन्त्र के प्रमुख प्रविभाजनों को सारणीबद्ध कीजिए। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के प्रकार्यों का वर्णन कीजिए।

4. Discuss the hormones of anterior pituitary gland. Why is it called as the master gland ? 10,5  
एन्टीरियर पीयूष ग्रन्थि के स्वार्वों का वर्णन कीजिए। पीयूष ग्रन्थि को प्रधान ग्रन्थि क्यों कहते हैं ?

*Or*

(अथवा)

What are the general characteristics of endocrine glands ? Discuss the functions and abnormalities of the thyroid gland.

5,10

अन्तःस्नावी ग्रन्थियों की सामान्य विशेषताएँ क्या हैं ? थायराइड ग्रन्थि के प्रकार्यों एवं असामान्यताओं का विवेचन कीजिए।

5. (a) Write a short note on any one of the following : 5

- (i) Hemispheric specialization
- (ii) Protection of the nervous system
- (iii) Pancreas.

निम्नलिखित में से किसी एक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

- (i) अर्धगोलीय विशिष्टीकरण
- (ii) तंत्रिकातन्त्र की सुरक्षा
- (iii) पैन्क्रियाज् ।

(b) Fill in the blanks :

- (i) Neurotransmitters are released by .....
- (ii) Myelin sheath covers the ..... of the neuron.
- (iii) Major area controlling motor behaviour is .....
- (iv) Glucco-corticoids are released by .....
- (v) The bunch of fibres which connects the two hemispheres is .....
- (vi) Endocrine glands are called ductless because .....
- (vii) Growth hormone is released from .....
- (viii) All-or-none law of neuronal function means .....
- (ix) The function of hypoglossal nerve is .....
- (x) Thyrotropin releasing hormone is secreted by .....

रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए :

- (i) ..... स्नायु प्रसारक छेड़ते हैं ।
- (ii) तंत्रकोशिका का ..... माइलिन आवरण द्वारा ढँका होता है ।
- (iii) गत्यात्मक व्यवहार को नियन्त्रित करने वाला प्रमुख भाग ..... है ।
- (iv) ..... द्वारा ग्लूकोकोर्टिकाइड निर्माचित होते हैं ।
- (v) दो प्रमस्तिष्क गोलाधीं को जोड़ने वाले तनुओं के गुच्छे को ..... कहते हैं ।
- (vi) अन्तःस्थावी ग्रन्थियाँ वाहिनीहीन ग्रन्थियाँ कहलाती हैं क्योंकि ..... ।
- (vii) बृद्धिकर हॉर्मोन ..... द्वारा स्रावित होता है ।
- (viii) तंत्रिकाकोशिकीय क्रियाविधि में सभी या कोई भी नहीं नियम का अर्थ है ..... ।
- (ix) हाइपोग्लौसल तंत्रिका का प्रमुख कार्य है ..... ।
- (x) थायरोट्रेपिन निर्मुक्त करने वाला हॉर्मोन ..... द्वारा उत्सर्जित होता है ।